

GDC Memorial College

Bahal (Bhiwani) - 127028

**NAAC Accredited Grade "B" (Second Cycle) and Recognized under
the Sections 2(f) & 12B of the UGC Act, 1956**

Affiliated to Ch. Bansi Lal University, Bhiwani

Arts and Humanities

**Programme learning Outcomes, Program Specific Learning Outcomes,
Course Learning Outcome**

❖ Program Learning Outcomes (PLO) – Arts & Humanities

Students completing a program in Arts and Humanities will be able to:

- 1. Critical Thinking**
Analyze social, cultural, historical, and economic issues logically and critically.
- 2. Communication Skills**
Express ideas effectively in oral and written forms using appropriate language and style.
- 3. Ethical Awareness**
Understand moral values, ethics, and responsibilities towards society.
- 4. Cultural Understanding**
Appreciate cultural diversity, traditions, and heritage at local, national, and global levels.
- 5. Research Skills**
Apply basic research methods to study problems in humanities and social sciences.
- 6. Problem Solving**
Identify and suggest solutions to real-life social and economic problems.
- 7. Interdisciplinary Knowledge**
Integrate knowledge from different subjects like economics, history, political science, and sociology.
- 8. Use of Technology**
Utilize modern tools and digital platforms for learning and research.
- 9. Environmental Awareness**
Understand sustainability and environmental issues affecting society.
- 10. Lifelong Learning**
Develop the ability to learn continuously and adapt to changing environments.

❖ Program Specific Learning Outcomes (PSLO) – Arts & Humanities

After completing the Arts and Humanities program, students will be able to:

1. Understanding of Social Systems
Explain social, political, and economic structures and their functioning.
2. Knowledge of Core Subjects
Gain in-depth knowledge of subjects like Economics, History, Political Science, Geography, etc.
3. Economic and Policy Analysis
Analyze economic problems, government policies, and development issues.
4. Historical Interpretation
Interpret past events and understand their impact on present society.
5. Political Awareness
Understand governance, constitution, rights, and duties of citizens.
6. Research Application
Conduct surveys, data collection, and basic analysis in social sciences.
7. Social Responsibility
Demonstrate awareness towards social justice, equality, and community development.
8. Communication in Humanities Context
Present ideas related to humanities subjects clearly and effectively.
9. Career Readiness
Prepare for careers in teaching, civil services, research, journalism, and social work.
10. Cultural Preservation
Contribute to preserving cultural heritage and promoting national integration.

Subject wise Course Learning Outcome

Department of Psychology

Semester- I

- **Name of Course:** Foundations of Psychology
Course Code: 24UN-PSY-101

Course Learning Outcome (CLO): After completing this course, the learner will be able to:

1. Demonstrate an understanding of foundational concepts of psychology and human behavior.
2. Understand the structure and function of sensory processes.
3. Comprehend theoretical concepts of emotion and motivation.
4. Understand various theories and factors affecting personality and intelligence.
5. Conduct experiments and tests related to Foundations of Psychology

- **Name of Course:** Human Values and Ethics
Course Code: 24UN-PSY-VAC101

Course Learning Outcome (CLO): After completing this course, the learner will be able to:

1. Recognize the core ideas of human values and their importance in life.
2. Examine the connection between ethics and values and how it affects how decisions are made.
3. Recognize and put into practice fundamental human qualities like empathy and honesty in everyday circumstances.
4. Learn about different ethical theories and how they apply to real-world situations.
5. Gain the capacity to analyze moral conundrums critically utilizing various ethical frameworks.

Semester- II

- **Name of Course:** Social Psychology ()
Course Code: 24UN-PSY-201

Course Learning Outcome (CLO): After completing this course, the learner will be able to:

1. Demonstrate an understanding of the foundational concepts of social behaviour and methods of study.
2. Demonstrate understanding of socialization process, person perception and attitudes.
3. Acquaint with interpersonal attraction, pro-social behaviour and aggression.

4. Understand the concept of leadership and dynamics of group and collective behaviour.
5. Acquaint with different types of psychological test related to social phenomenon.

Semester- III

- **Name of Course:** Experimental Psychology ()
Course Code: 24UN-PSY-301

Course Learning Outcome (CLO): After completing this course, the learner will be able to:

1. Develop understanding regarding experimental procedure and perception.
2. Develop an understanding regarding nature and methods of classical Psychophysics.
3. Acquaint with processes of Learning and Memory.
4. Acquire understanding regarding Problem Solving and elementary Statistics.
5. Conduct experiments related to their theory paper.

Semester- IV

- **Name of Course:** Developmental Psychology ()
Course Code: 24UN-PSY-401

Course Learning Outcome (CLO): After completing this course, the learner will be able to:

1. Develop understanding regarding concepts, process, domains and different perspectives of human development.
2. Grasp understanding of beginning of human life and birth process.
3. Inculcate knowledge regarding nature of development across life Span
4. To understand the transitional processes during adolescence and old age.
5. Conduct tests related to their theory and paper.

Course Learning Outcome

Department of Economics

Semester 1st

Course Learning Outcome (CLO): After completing this course, the learner will be able to:

- **Name of Course: Micro Economics-I**
- **Course Code: 24UN-ECO-101**

CLO-1. Learners are able to understand the basic concepts of economics.

CLO-2. Learn the demand and supply behavior of consumers and producers in the market.

CLO-3. Understand how the producers produce the goods in economy and what types of cost involved.

CLO-4. Classification of markets and determination of equilibrium.

Semester 2nd

Course Learning Outcome (CLO): After completing this course, the learner will be able to:

- **Name of Course: Macro Economics- I**
- **Course Code: 24UN-ECO-201**

CLO-1. Understand basic concepts of macroeconomics such as national income, inflation, unemployment and economic growth.

CLO -2. Explain national income accounting and methods of measuring national income.

CLO-3. Analyze consumption and saving functions and their role in economic activity.

CLO-4. Understand the concept of investment and factors affecting it.

CLO-5. Explain the determination of income and employment using simple models.

Semester 3rd

Course Learning Outcome (CLO): After completing this course, the learner will be able to:

- **Name of Course: Micro Economics-II**
- **Course Code: 24UN-ECO-301**

CLO-1. Understood the equilibrium position of firm and industry under Monopoly market and how monopoly firm can discriminate the prices Equilibrium in imperfect market.

CLO-2. Understand the equilibrium position in oligopoly and duopoly market.

CLO-3. To know the facts of market failure.

CLO-4. To know how factor prices will be determined.

Semester 4th

Course Learning Outcome (CLO): After completing this course, the learner will be able to:

- **Name of Course: Macro Economics-II**
- **Course Code: 24UN-ECO-401**

CLO-1. Understand advanced macroeconomic concepts like aggregate demand, aggregate supply, and equilibrium.

CLO-2. Analyze income determination models including Keynesian theory.

CLO-3. Explain the role of money, banking, and financial systems in the economy.

CLO-4. Evaluate inflation, deflation, and unemployment and their impact.

CLO-5. Understand business cycles and phases of economic fluctuations.

Semester 4th

Course Learning Outcome (CLO): After completing this course, the learner will be able to:

- **Name of Course: Sustainable Development Goals**
- **Course Code: 24UN-ECO-VAC301/401**

CLO1: Get basic understanding of the concept of SDGs.

CLO2: Acquainted with the social dimensions of sustainability.

CLO3: Understand the economic dimension of sustainability.

CLO4: Understand the environmental dimensions of sustainability.

Course Learning Outcome

B.A (Political Science) 1st Semester

पाठ्यक्रम के परिणाम, कार्यक्रम के परिणाम और कार्यक्रम विशिष्ट परिणाम

पाठ्यक्रम के परिणाम

- पाठ्यक्रम के सफल समापन के बाद, छात्र/छात्रा से उम्मीद की जाती है:
1. राजनीतिक शास्त्र के अर्थ, परिभाषा, प्रकृति व क्षेत्र से परिचित होंगे।
 2. राजनीति विज्ञान का अन्य सामाजिक विज्ञानों, इतिहास, अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र व समाजशास्त्र से क्या संबंध है, पता चलेगा।
 3. राज्य का अर्थ, परिभाषा, आवश्यक तत्व तथा राज्य समाज, राज्य सरकार, राष्ट्र-राज्य के मध्य समानता व असमानता से अवगत होंगे।
 4. राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांतों दैवीय, शक्ति, संविदा, ऐतिहासिक व विकासवादी सिद्धांत से परिचित होंगे।
 5. राज्य के विकास के विभिन्न आयामों तथा राज्य के उदारवादी व मार्क्सवादी स्वरूप का जान होगा।
 6. राज्य के कार्य- उदारवादी व समाजवादी का विश्लेषण कर सकेंगे।
 7. लोक कल्याणकारी राज्य का विस्तृत जान प्राप्त होगा।
 8. संप्रभुता का अर्थ, परिभाषा, प्रकार व सिद्धांतों की समीक्षा कर सकेंगे।
 9. संप्रभुता के बहुलवादी दृष्टिकोण को समझ सकेंगे।

B.A (Political Science) 2nd Semester

पाठ्यक्रम के परिणाम, कार्यक्रम के परिणाम और कार्यक्रम विशिष्ट परिणाम

पाठ्यक्रम के परिणाम

- पाठ्यक्रम के सफल समापन के बाद, छात्र/छात्रा से उम्मीद की जाती है:
1. भारतीय संघवाद के स्वरूप एवं कार्य-प्रणाली से परिचित होंगे।
 2. केंद्र-राज्यों के पारस्परिक संबंधों (विधायी प्रशासनिक व वित्तीय संबंधों) को जानेंगे।
 3. राज्य स्वायत्तता के लाभ-हानियों से अवगत होंगे।
 4. भारतीय संघ की उभरती प्रवृत्तियों का जान प्राप्त करेंगे।
 5. भारतीय निर्वाचन आयोग के संगठन, कार्य-प्रणाली को जानेंगे।

6. चुनाव प्रणाली की खामियों व उनमें सुधार की आवश्यकताको समझेंगे।
7. भारत में दल-बदल की व्यवस्था, दोष एवं सुधार हेतु उपाय को जानेंगे।
8. भारतीय मतदाताओं के मतदान व्यवहार को समझेंगे।
9. भारतीय दलीय पद्धति, स्वरूप व विशेषताओं से परिचित होंगे।
10. भारत में कार्यरत दबाव समूहों व हित समूह के स्वरूप से अवगत होंगे।
11. भारतीय राजनीतिक प्रक्रिया में जाति की भूमिका को जानेंगे।
12. भारतीय राज व्यवस्था में धर्म, भाषा व क्षेत्रवाद के प्रभाव से परिचित होंगे।
13. आरक्षण व आरक्षण की राजनीति से अवगत होंगे।
14. भारतीय राजनीतिक पद्धति के समक्ष उत्पन्न प्रवृत्तियों व चुनौतियों को जानेंगे।

B.A (Political Science) 3rd Semester

पाठ्यक्रम के परिणाम, कार्यक्रम के परिणाम और कार्यक्रम विशिष्ट परिणाम

पाठ्यक्रम के परिणाम

भारतीय संविधान सभा के गठन, उद्देश्य व संविधान के स्रोत को जानेंगे।

1. भारतीय संविधान की विशेषताएँ स्पष्ट होंगी।
2. प्रस्तावना का अर्थ व महत्व की जानकारी होगी।
3. मूल अधिकार, मूल कर्तव्य व निर्देशक तत्वों की विशेषताएँ, आलोचनाएँ व महत्व के संदर्भ में अवगत होंगे।
4. संघीय कार्यपालिका- राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व कैबिनेट का विस्तार पूर्वक जान होगा।
5. राज्य पालिका-राज्यपाल, मुख्यमंत्री व कैबिनेट के अधिकार, शक्ति व भूमिका से परिचित होंगे।
6. संसद में राज्य विधानमंडल के संगठन, सदस्यता, अधिकार शक्तियों व भूमिका का अवलोकन करेंगे।
7. सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के संगठन, कार्य व भूमिका तथा न्यायिक पुनर्निरीक्षण न्यायिक सक्रियता का विश्लेषण कर सकेंगे।
8. पंचायती राज व्यवस्था का विधिवत जान प्राप्त होगा।

B.A (Political Science) 4th Semester

पाठ्यक्रम के परिणाम, कार्यक्रम के परिणाम और कार्यक्रम विशिष्ट परिणाम

पाठ्यक्रम के परिणाम

पाठ्यक्रम के सफल समापन के बाद, छात्र/छात्रा से उम्मीद की जाती है:

1. अधिकार का अर्थ, प्रकार एवं महत्व को समझेंगे।
2. कर्तव्य का अर्थ, प्रकार, महत्व तथा अधिकार व कर्तव्य के बीच संबंधों को स्पष्ट कर सकेंगे।
3. मानवाधिकार का अर्थ तथा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा व महत्व से परिचित होंगे।
4. स्वतंत्रता का अर्थ, प्रकार व महत्व से परिचित होंगे।
5. सामाजिक परिवर्तन का अर्थ, कारण का ज्ञान प्राप्त होगा।
6. विकास का अर्थ, सिद्धांत व कारण को स्पष्ट कर सकेंगे।
7. सूचना के अधिकार से छात्र-छात्राएं परिचित होंगे एवं इनकी प्रासंगिकता को व्यक्त कर सकेंगे।
8. उपभोक्ता संरक्षण की आवश्यकता व महत्व का ज्ञान प्राप्त करेंगे।

Course Learning Outcome

Department of Mathematics

Name of Programme: B A/BSc

Session: 2025-26

Semester-1

Name of the Course: Calculus

Course Code 24UN-MTH-101

After Completing this Course, the learner will be able to:

CLO1. Gain knowledge of the Concepts and theory of limit, Continuity and differentiability of functions. Attain skills of calculating the limit of functions and examining the Continuity and differentiability of different types of functions, and perform successive differentiation of functions. To apply the procedural knowledge to obtain the series expansions of functions which find multidisciplinary application.

CLO2. Understand Concepts of asymptotes and curvature, the geometrical meaning of these terms and to have procedural knowledge to solve related problems.

CLO3. Determine singular points of a curve and classify them. Understand the Concept of rectification of curves and derive the reduction formulae.

CLO4. Have theoretical knowledge and practical skills to evaluate the area bounded by the curves, and volume and surface area of solids formed by revolution of curves.

CLO5. Attain Cognitive and technical skills required for solving different problems of calculus associated with tracing of curves, determination of curvature, and rectification of curves, volume and surface area of solids of revolution. Have technical and practical skills of solving calculus problems related to differentiation and integration of functions by using MAXIMA software.

Semester-2

Name of the Course: Algebra and Number Theory

Course Code 24UN-MTH-201

After Completing this Course, the learner will be able to:

CLO 1. Gain knowledge of the Concepts of symmetric, skew-symmetric, Hermitian, skew-Hermitian, Orthogonal and Unitary matrices, Linear dependence and independence of rows and Columns of a matrix. Have knowledge of procedure and Cognitive skills used in calculating rank of a matrix, Eigen values, characteristic equation, minimal polynomial of a matrix and technical skills used in solving problems based on Cayley- Hamilton theorem.

CLO2. Have knowledge of the Concepts used in solving problems based on relations between the roots and Coefficients of general polynomial equation in one variable, solutions of polynomial equations having Conditions on roots, Common roots and multiple roots. Understand Descarte's rule of signs and learn Cognitive and technical skills required in assessing nature of the roots of an equation and solving problems based on these.

CLO3. Have deeper and procedural knowledge required for solving cubic and biquadratic equations used in Mathematics as well as many other learning fields of study. To understand the basic Concepts of number theory and their applications in problem solving and life- long learning.

CLO4. Have knowledge of Concepts, facts, principles and theories of Linear Congruences, Fermat's theorem, Euler's theorem, Wilson's theorem and its Converse, Chinese Remainder theorem. Attain Cognitive skills used in solving linear Diophantine equations in two variables.

CLO5. Attain Cognitive and technical skills required to formulate and solve practical problems involving rank of a matrix, inverse of a matrix, Cordon's method, Ferrari's method, Descarte's method, Cayley-Hamilton theorem, Euler's theorem and Chinese Remainder theorem. Have technical and practical skills required for solving algebraic equations, finding inverse and Eigen values of matrices by using built in functions of MAXIMA software.

Semester-3

Name of the Course: Differential Equations-1

Course Code 24UN-MTH-301

After Completing this Course, the learner will be able to:

CLO1. Gain knowledge of the basic Concepts of ordinary differential equations and learn various techniques of finding exact solutions of certain solvable first order differential equations.

CLO2. Have procedural knowledge and Cognitive and technical skills of solving homogeneous and non homogeneous second order linear ordinary differential equations with Constant Coefficients and with variable Coefficients.

CLO 3. Gain knowledge of theory of total differential equations and basic Concepts of partial differential equations. To learn methods and techniques for solving linear PDEs of first order and to acquire technical skills for accomplishing assigned tasks relating to formulation and solution of PDEs in broad multidisciplinary Contexts.

CLO 4. Have knowledge of Concepts and theories of second order PDEs and to apply theory of PDEs to determine integral surfaces through a given curve and to find orthogonal surfaces. To understand Compatible systems and to learn Cognitive and technical skills required for selecting and using relevant Charpit method, Jacobi method methods to assess the appropriateness of approaches for solving PDEs.

CLO5. To attain Cognitive and technical skills required for selecting and using relevant methods and techniques to assess the appropriateness of approaches to solving problems associated with the differential equations. To attain technical skill of solving differential equations by using built in functions of MAXIMA software.

Semester-4

Course Name: Analytical Geometry & Vector Calculus

Course Code 24UN-MTH-401

After Completing this Course, the learner will be able to:

CLO1. Gain knowledge of the Concept of different Conic sections, their classification and properties. Understand various terms related to Conic sections and gain skills to use them in problem solving.

CLO2. Have knowledge of general form of equation of a sphere and attain procedural knowledge required for solving problems related to intersection of spheres, tangent plane and line, orthogonality, length of tangent and Co-axial system of spheres. Learn about equations of Cones and apply knowledge for problem solving.

CLO3. Have deeper knowledge and understanding of cylinder, enveloping cylinder, Concepts of Conicoids, tangent plane, director sphere, normal, envelope and to make further use thereof.

CLO 4. Understand and solve problems related to scalar and vector product of vectors, vector differentiation, directional derivatives, gradient, divergence and curl operators. Have deeper understanding of line, surface and volume integrals, their evaluation, proof of Gauss Divergence, Green's and Stoke's theorems and gain theoretical and technical knowledge in Computing different surface flux integrals, volume integrals and line integrals used in other disciplines also.

CLO5. Attain Cognitive and technical skills required for solving practical problems related to assessing nature of Conicoid, their characteristics. Learn skills to formulate and solve real life practical problems on sphere, Cone and cylinder; to generate solutions of practical problems involving Complex line, surface and volume integral using Gauss Divergence theorem, Stoke's theorem, Green's theorem in a very easy manner.

Course learning Outcomes

Department of Hindi

हिंदी विभाग 2025 -26

कक्षा बी.ए.

सेमेस्टर: द्वितीय

विषय:राजभाषा हिंदी प्रावधान और प्रयोग

विषय कोड: 24UN-HND-202

पाठ्यक्रम अधिगम के परिणाम:

1. विद्यार्थी राजभाषा हिंदी के महत्व और इसके प्रावधानों को समझने में सक्षम होंगे।
2. विद्यार्थी हिंदी भाषा के प्रयोग के विभिन्न पहलुओं को समझने में सक्षम होंगे।
3. विद्यार्थी हिंदी भाषा में सरकारी कामकाज और पत्राचार करने में सक्षम होंगे।
4. विद्यार्थी हिंदी भाषा के शब्दावली और तकनीकी शब्दों को समझने और उनका उपयोग करने में सक्षम होंगे।

Semester 2nd

हिंदी विभाग 2025 -26

कक्षा बी.ए.

सेमेस्टर : द्वितीय

पाठ्यक्रम के उद्देश्य, परिणाम एवं विशिष्ट उद्देश्य

विषय:मध्यकालीन हिंदी कविता

विषय कोड: 24UN-HND-201

पाठ्यक्रम अधिगम के परिणाम:

1. विद्यार्थी मध्यकालीन हिंदी कविता के प्रमुख कवियों और उनकी कविताओं को समझने में सक्षम होंगे।
2. विद्यार्थी मध्यकालीन हिंदी कविता के विभिन्न पहलुओं को समझने में सक्षम होंगे।
3. विद्यार्थी मध्यकालीन हिंदी कविता की भाषा , शैली, और तकनीक को समझने में सक्षम होंगे।
4. विद्यार्थी मध्यकालीन हिंदी कविता के साहित्यिक और सांस्कृतिक महत्व को समझने में सक्षम होंगे।

Semester 4th

हिंदी विभाग 2025- 26

कक्षा: बीए, बीएससी, बीकॉम

सेमेस्टर :चतुर्थ

पाठ्यक्रम शिक्षण के उद्देश्य एवं परिणाम

विषय:हिंदी भाषा एवं संप्रेषण : व्यक्तित्व विकास।
AEC401

विषय कोड: 24UN-HND-

पाठ्यक्रम अधिगम परिणाम:

1. विद्यार्थी हिंदी भाषा के महत्व और इसके प्रयोग को समझने में सक्षम होंगे।
2. विद्यार्थी संप्रेषण कौशल के विभिन्न पहलुओं को समझने में सक्षम होंगे।
3. विद्यार्थी व्यक्तित्व विकास के विभिन्न पहलुओं को समझने में सक्षम होंगे।
4. विद्यार्थी हिंदी भाषा में प्रभावी ढंग से संवाद करने में सक्षम होंगे।

Semester 4th

हिंदी विभाग: 2025-26

कक्षा: बी.ए.

सेमेस्टर: चतुर्थ

विषय : कथेतर गद्य विधाएं

विषय कोड: 24UN-HND-401

कथेतर गद्य विधाएं: पाठ्यक्रम अधिगम के उद्देश्य परिणाम एवं विशिष्ट उद्देश्य

1. निबंध: छात्रों को निबंध की विशेषताओं, प्रकारों और लेखन कौशल को समझना।
2. आत्मकथा: छात्रों को आत्मकथा की विशेषताओं, प्रकारों और लेखन कौशल को समझना।
3. संस्मरण: छात्रों को संस्मरण की विशेषताओं, प्रकारों और लेखन कौशल को समझना।
4. रेखाचित्र: छात्रों को रेखाचित्र की विशेषताओं, प्रकारों और लेखन कौशल को समझना।
5. यात्रा वृत्तांत: छात्रों को यात्रा वृत्तांत की विशेषताओं , प्रकारों और लेखन कौशल को समझना।

इन पाठ्यक्रम अधिगम के विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने से छात्र कथेतर गद्य विधाओं के बारे में गहराई से समझ प्राप्त करेंगे और उनके लेखन और विश्लेषण कौशल को विकसित करेंगे।

Course learning Outcomes

Department of English

Name of Programme: B. A. 1 st

Session: 2025-26

Course name – Children's Literature

Course Code - 24UN-ENG-102

Course Learning Outcomes (CLOs)

CLO 1. Understand the concept, scope, and significance of children's literature as a distinct literary genre.

CLO 2. Analyze the narrative structure, themes, and moral lessons of selected Indian children's stories.

CLO 3. Examine the representation of values such as courage, empathy, and justice in stories like *The Angry River* and *Brave Women of India*.

CLO 4. Interpret the cultural and mythological dimensions in *The Serpent's Revenge* and *The Mahabharata: A Child's View*.

CLO 5. Develop creative and reflective responses to children's stories through discussions, presentations, and writing tasks.

B. A. 1 st

Session: 2025-26

Course Title – Short Stories

Course Code – 25UN- ENG- 101

Course Learning Outcomes (CLOs) By the end of this course, students will be able to:

CLO 1: Identify major themes, plots, and characters in selected short stories from English literature.

CLO 2: Analyze literary elements such as setting, tone, irony, and symbolism in short fiction.

CLO 3: Interpret the moral, psychological, and social concerns reflected in stories by Maugham, Wilde, Maupassant, Poe, O. Henry, and Tolstoy.

CLO 4: Develop critical and creative responses to short stories through written assignments and discussions.

CLO 5: Compare different narrative styles and techniques used by various authors.

Department of English

B.A. 2nd sem

Subject:-Business Communication

Subject Code: 24UN-ENG-AEC201

Course Outcomes (CO)

CO1. Develop effective business communication skills across various contexts.

CO2. Prepare and present business reports, proposals, and other professional documents effectively.

CO3. Improve job-oriented skills like CV writing, email drafting, memo writing, and LinkedIn profiling.

B.A. 4th sem

Session: 2025-26

Course: English Drama (25UN-ENG-401)

Course Learning Outcomes (CLOs)

CLO 1: Understand the nature, types, and elements of drama as a literary genre.

CLO 2: Identify and explain various forms of drama such as tragedy, comedy, and problem play.

CLO 3: Analyze prescribed plays with reference to plot, character, theme, and dramatic technique.

CLO 4: Appreciate drama as both a literary text and a performative art form.

CLO 5: Interpret social, ethical, and human issues reflected in dramatic texts.

B.A. 2nd sem

Session: 2025-26

Course: English Prose (25UN-ENG-201)

Course Learning Outcomes (CLOs)

- a. Meaning & purpose of prose Prose styles (formal to conversational).
- b. Essay analysis (theme, style, language).
- c. Social, political.
- d. & moral reflection Critical thinking.
- e. & reflective reading.

\

Course Learning Outcome
Department of History
Semester- I

Name of Course: History of Ancient India

Course Code: 24UN-HIS-101

Teacher Name: Dr. Mukesh Kumari

Course Learning Outcome (CLO):

After completing this course, the learner will be able to:

- Learn about the Sources for reconstructing the history of Ancient India and also know the major historical developments from the Civilization upto the rise of Magdha Empire in ancient origins of Harappan India.
- Understand the major historical developments pertaining to the rise of Mauryan Empire, Post-Mauryan states like Kushana and Satvahana, rise of Gupta Empire, and Post- Gupta Powers in ancient India.
- Grasp the major historical developments pertaining to the Triangular Struggle for Hegemony of Kannauj among Palas, Pritiharas and Rashtrakutas; Polity and Administration of Cholas; Rise of Rajputs, and invasions of Mahmood Ghaznavi and Muhammad Ghori in India.
- Demonstrate the sites of Harappan Civilization, extent of Ashoka's Empire, extent of Kanishka's Empire and extent of Harsha's Empire on the outline map of India and also explicate it historically.

Semester- II

Name of Course: History of Medieval India

Course Code: 24UN-HIS-201

Teacher Name: Dr. Mukesh Kumari

Course Learning Outcome (CLO): After completing this course, the learner will be able to:

- Learn the major historical developments pertaining to the Emergence and Consolidation of Delhi Sultanate; State Apparatus of the Sultanate; rise of Bahmani and Vijaynagar Empires, and the growth of Bhakti and Sufi Movements in medieval India.
- Understand the major historical developments pertaining to the Establishment of Mughal Rule; rise of Shershah Suri and his Administration; Polity and Policies of the Great Mughals; the features of Mughal Systems, and Society and Economy under Mughals.
- Grasp the Disintegration of Mughal Empire, Emergence of Regional Powers in 18th century; Rivalry between European Powers in India and Wars of Carnatic, and Conquest of East India Company over Bengal.
- Demonstrate the Expansion of Alauddin Khilji's Empire, Political Conditions of India in 1526, Extent of Mughal Empire at the Death of Akbar (1605) and Extent of Mughal Empire at the Death of Aurangzeb (1707) on the outline map of India and also explicate it historically.

Semester- III

Name of Course: Modern History of India

Course Code: 24UN-HIS-301

Teacher Name: Dr. Ashok Kumar

Course Learning Outcome (CLO): After completing this course, the learner will be able to:

- Learn the major historical developments pertaining to the Establishment, Expansion and Consolidation of the British Rule in India.
- Understand the major historical developments pertaining to the Uprising of 1857; Impact of Social Reform Movements and the Emergence of Indian National Movement
- To Understand the role of Revolutionaries, Depressed Class, INA, Prajamandal Movements and the Mahatma Gandhi in Indian National Movements.
- Demonstrate the Expansion of the British Empire.

Semester- IV

Name of Course: History of Ancient World

Course Code: 24UN-HIS-401

Teacher Name: Ms. Sunita

Course Learning Outcome (CLO): After completing this course, the learner will be able to:

- Acquaint with the Evolution of Humankind; Beginning of Agriculture & Animal Husbandry and the Society, Culture, and Economy of Nomadic Groups in ancient Central and West Asia.
- Learn the Polity, Economy, Society, Culture, Arts, Science & Technology of the ancient Civilizations of Mesopotamia, Egypt and China.
- Grasp the Use of Iron and its Implications on Humankind and the salient features, and major developments in Ancient Greece and Rome until the Fall of Roman Empire.
- Demonstrate the Main Sites of Paleolithic and Mesolithic Cultures and Extent and Important Places connected with the Civilizations of Mesopotamia, Egypt, China and Greece on the outline map of World and also explicate it historically.

Course Learning Outcome
Department of Commerce
Semester- I

- **Name of Course:-** Personal finance
- **Course Code:** 24UN-BBA-MDC-101

Course Learning Outcome (CLO) After completing this course, the learner will be able to:

1. Understand the basics of personal finance and personal planning.
2. Gain the knowledge of investment and different investment avenues available for managing finance.
3. Understand the relationship between investment risk and return and the role of regulatory environment in managing personal finance.
4. Do insurance planning, tax and estate planning and retirement planning.

Semester- II

- **Name of Course:** Introduction to Entrepreneurship Development
- **Course Code:** 24UN-BBA-MDC-102

Course Learning Outcome (CLO): After completing this course, the learner will be able to:

- CO1: Demonstrate an understanding of basic concepts of entrepreneurship.
CO2: Exhibit practical knowledge required for being an entrepreneur.
CO3: Link entrepreneurship to Economy.
CO4: Understand and apply the process of entrepreneurship.
CO5: Distinguish the pros and cons of various government schemes with reference to a particular business venture.
CO6: Prepare a business plan that can be submitted to investor/lender.
CO7: Appraise a business project.

Course Learning Outcome

Department of Geography

B.A. (Geography) 1st Semester

Name of Programme: B.A. Geography

Session: 2025-26

Course Learning Outcomes (CLO)

Subject: Physical Geography

Subject Code: - 24UN-GEO-101

After successful completion of the course, the student is expected to:

CLO.1: Develop an understanding of the fundamental concepts in geo-tectonics, including the structure and dynamics of Earth's crust and lithospheric plates.

CLO.2: Comprehend the various agents (such as water, wind, ice, and organisms) and natural processes responsible for shaping and modifying the surface features of the Earth.

CLO.3: Expand knowledge regarding the structure, composition, and dynamics of the atmosphere, as well as factors affecting weather and climate.

CLO.4: Gain insights into the configuration of the ocean surface and the patterns of oceanic circulation, with emphasis on factors influencing currents and their environmental significance.

CLO.5: Acquire practical skills for analyzing and solving real-world problems related to physical geography, through exercises, fieldwork, and application-based approaches.

B.A. (Geography) IInd Semester

Subject: Human Geography Subject Code: 24UN-GEO-201

After successful completion of the course, the student is expected to:

CLO.1: Gain comprehensive knowledge of the fundamental concepts and principles underlying human geography, including its scope and significance.

CLO.2: Enhance understanding of social constructs such as race and religion and their spatial and cultural variations across different regions.

CLO.3: Understand the principles governing the organization of space and how human activities spatially structure societies and regions.

CLO.4: Familiarize with various world economic systems and their geographical distribution, including their impact on development and trade.

CLO.5: Acquire skills to map, analyze, and interpret socio-economic and demographic data for spatial planning and research.

B.A. (Geography) 3rd Semester

Subject: Geography of India

Subject Code: -25UN-GEO-301

After successful completion of the course, the student is expected to:

CLO.1: Develop comprehensive knowledge of the physiographic features and landscape divisions of our nation.

CLO.2: Understand the fundamentals of agriculture and irrigation systems, including their regional variations and importance.

CLO.3: Gain insight into the basic demographic structure, including population characteristics and literacy rates.

CLO.4: Build awareness about the distribution and significance of natural resources and industries within the nation.

CLO.5: Acquire skills to interpret and analyse socio-economic and demographic data for informed decision-making.

B.A. (Geography) 4th Semester

Name of Course: Fundamental of Economic Geography

Course Code: 24UN-GEO-401

Course Learning Outcome (CLO): After completing this course, the learner will be able to:

CLO.1. Provides knowledge about the fundamental concepts of economic geography.

CLO.2. Acquisition of knowledge about resources and their conservation.

CLO.3. Enrichment of knowledge about distribution of crops, minerals, and energy resources

CLO.4. Acquaintance with global industries, transport, communication, and trade.

CLO.5. Attain skills in solving practical problems associated with economic geography.

